

ਸੰਦਰਬ / Ref. No. PSB/HO/Shares Cell / 14 /2023-24

ਦਿਨਾਂਕ /Dated: May 02, 2023.....

To,

BSE Limited,
Department of Corporate Services,
25th floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Fort,
Mumbai – 400 001.
SCRIP ID : PSB
SCRIP CODE : 533295

National Stock Exchange of India Ltd.,
Exchange Plaza, C – 1, Block – G,
Bandra Kurla Complex, Bandra (East),
Mumbai – 400 051.
SYMBOL: PSB SERIES: EQ

Dear Sir,

Reg: Punjab & Sind Bank – Press Release dated 02.05.2023

We are forwarding a copy of Press Release dated 02.05.2023 issued by the Bank on Financial Results of the Bank for the Quarter (Q4) / Financial Year ended March 31, 2023. The same can also be viewed on the website of the Bank i.e, <https://punjabandsindbank.co.in/>

You are requested to take a note of the above.

Yours faithfully,

Saket Mehrotra
Company Secretary



PRESS RELEASE

Date: 02nd May 2023

Financial Results for the Quarter and Year ended 31st March 2023

- ✓ Punjab and Sind Bank records highest ever Net Profit of Rs.1313 Cr (FY) against a Net Profit of Rs.1039 Cr (Y-o-Y), registering a growth of 26.37%.
- ✓ Bank's Operating Profit zooms to Rs.536 Cr during Q4 FY 2023, with Y-o-Y growth of 69.09% and Q-o-Q growth of 55.81%.

Q4 FY 2023 Key Highlights (Y-o-Y)

Parameter	Q4 FY 2022	Q4 FY 2023	Growth %
Operating Profit (in Cr)	317	536	69.09
Net Profit (in Cr)	346	457	32.08
Return on Assets (RoA)	1.10	1.33	23 bps
Return on Equity (RoE)	25.84	28.43	259 bps
Yield on Advances (YoA)	7.13	7.85	72 bps
Cost-to-Income Ratio	65.19	56.45	(874) bps
Non-Interest Income (in Cr)	215	547	154.42
Total Business (in Cr)	172524	190647	10.50
Credit-Deposit Ratio	68.91	73.84	493 bps
Slippage Ratio	0.76	0.63	(13) bps
Gross NPA (%)	12.17	6.97	(520) bps
Net NPA (%)	2.74	1.84	(90) bps
Recovery and Up-gradation (in Cr)	553	1153	108.50
Credit Cost	0.01	(0.38)	(0.39)

Key Summary of Business Performance (as on 31st March 2023)

Y-o-Y Performance (Financial Year):

Parameter	FY 2022	FY 2023	Growth %
Operating Profit (in Cr)	1330	1450	9.02
Net Profit (in Cr)	1039	1313	26.37
Net Interest Income (in Cr)	2652	2973	12.10
Return on Assets (RoA)	0.85	0.98	13 bps
Return on Equity (RoE)	20.42	22.18	176 bps
Yield on Advances (YoA)	7.20	7.67	47 bps
Net Interest Margin (NIM)	2.80	2.91	11 bps
Cost-to-Income Ratio	63.16	62.95	(21) bps
Credit-Deposit Ratio	68.91	73.84	493 bps
Gross NPA (%)	12.17	6.97	(520) bps
Net NPA (%)	2.74	1.84	(90) bps
Provision Coverage Ratio (PCR)	87.89	89.06	117 bps
Total Deposit (in Cr)	102137	109665	7.37
Gross Advances (in Cr)	70387	80982	15.05
RAM Advances (in Cr)	35692	43082	20.70

Q-o-Q Performance (Sequential):

Parameter	Q3 FY 2023	Q4 FY 2023	Growth %
Operating Profit (in Cr)	344	536	55.81
Net Profit (in Cr)	373	457	22.52
Credit-Deposit Ratio	71.00	73.84	284 bps
Cost-to-Income Ratio	63.47	56.45	(702) bps
Non-Interest Income (in Cr)	138	547	296.38
Return on Assets (RoA)	1.11	1.33	22 bps
Return on Equity (RoE)	26.09	28.43	234 bps
Gross NPA (%)	8.36	6.97	(139) bps
Net NPA (%)	2.02	1.84	(18) bps
Recovery and Up-gradation (in Cr)	596	1153	93.46
Total Business (in Cr)	187242	190647	1.82

Key Summary of Business Performance (as on 31st March 2023)

Priority Sector Advance and Financial Inclusion:

- ✓ Bank surpasses the targets in Priority Sector Advance which stands at 54.99% and Agriculture Advance at 20.67% of ANBC, as on March 2023, against the regulatory target of 40% and 18% respectively.
- ✓ Credit to Small and Marginal farmers stands at 11.06% of ANBC, against the regulatory target of 9.50%.
- ✓ Credit to Weaker Sections stands at 12.68% of ANBC, against the regulatory target of 11.50%.
- ✓ Credit to Micro Enterprises stands at 14.31% of ANBC, against the regulatory target of 7.50%.
- ✓ Bank is having 19.30 lakh PMJDY accounts with balance of deposits of Rs.558 Cr as at March 2023.

Capital Position:

- ✓ Capital Adequacy ratio (CRAR) at 17.10% with Common Equity Tier 1 (CET-1) ratio of 14.32% at the end of March 2023.

Distribution Network:

- ✓ As on 31st March 2023, Bank has 1537 number of branches, out of which 572 are Rural, 281 Semi-Urban, 362 Urban and 322 Metro along with 835 number of ATMs, 357 Business Correspondents.
- ✓ Bank has recently opened 25 new branches in PAN India, total number of branches stands at 1553 as on date.

Awards & Accolades:

- ✓ Best Emerging Bank at MSME Banking Excellence Award.
- ✓ 1st Position under "Exemplary Gold Award" in Leadership Capital 4.0 by PFRDA.
- ✓ Runner-up in "Best Digital Financial Inclusion" declared by IBA.
- ✓ 3rd Position in "Door-step Banking Udaan Campaign" by PSB Alliance Private Limited.

कृते पंजाब एण्ड सिंध बैंक
For PUNJAB & SIND BANK



उप महाप्रबंधक (ज.सं.) / Deputy General Manager (PR)

प्रेस-विज्ञप्ति

दिनांक : 02 मई 2023

31 मार्च 2023 को समाप्त तिमाही और वित्त वर्ष के वित्तीय परिणाम

- ✓ पंजाब एण्ड सिंध बैंक ने वित्त वर्ष 2022-23 में रिकॉर्ड ₹1313 करोड़ का शुद्ध लाभ कमाया, जोकि वित्त वर्ष 2021-22 में ₹1039 करोड़ था, यह 26.37% की वृद्धि दर्शाता है।
- ✓ वित्त वर्ष 2023 की चौथी तिमाही के दौरान बैंक का परिचालन लाभ 69.09% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि और 55.81% की तिमाही-दर-तिमाही वृद्धि के साथ बढ़कर ₹536 करोड़ हो गया।

वित्त वर्ष 2022-23 की चौथी तिमाही उल्लेखनीय तथ्य (वर्ष-दर-वर्ष)

मापदण्ड	वित्त वर्ष 2021-22 चौथी तिमाही	वित्त वर्ष 2022-23 चौथी तिमाही	वृद्धि %
परिचालन लाभ (करोड़ में)	317	536	69.09
शुद्ध लाभ (करोड़ में)	346	457	32.08
आस्तियों पर प्रतिफल (आर ओ ए)	1.10	1.33	23 बीपीएस
इक्विटी पर प्रतिफल (आर ओ ई)	25.84	28.43	259 बीपीएस
अग्रिमों पर प्रतिफल (वाई ओ ए)	7.13	7.85	72 बीपीएस
आय-अनुपात-लागत	65.19	56.45	(874) बीपीएस
गैर-ब्याज आय (करोड़ में)	215	547	154.42
कुल व्यवसाय (करोड़ में)	172524	190647	10.50
ऋण-जमा अनुपात	68.91	73.84	493 बीपीएस
स्लिपेज अनुपात	0.76	0.63	(13) बीपीएस
सकल अनर्जक आस्तियां (जीएनपीए) (%)	12.17	6.97	(520) बीपीएस
निवल अनर्जक आस्तियां (एनएनपीए) (%)	2.74	1.84	(90) बीपीएस
वसूली और उन्नयन (करोड़ में)	553	1153	108.50
क्रेडिट लागत	0.01	(0.38)	(0.39) बीपीएस

व्यवसाय प्रदर्शन का मुख्य सारांश (31 मार्च 2023)

वर्ष-दर-वर्ष प्रदर्शन (वित्तीय वर्ष):

मापदण्ड	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2022-23	वृद्धि %
परिचालन लाभ (करोड़ में)	1330	1450	9.02
शुद्ध लाभ (करोड़ में)	1039	1313	26.37
निवल ब्याज आय (करोड़ में)	2652	2973	12.10
आस्तियों पर प्रतिफल (आर ओ ए)	0.85	0.98	13 बीपीएस
इक्विटी पर प्रतिफल (आर ओ ई)	20.42	22.18	176 बीपीएस
अग्रिमों पर प्रतिफल (वाई ओ ए)	7.20	7.67	47 बीपीएस
निवल ब्याज मार्जिन (एन आई एम)	2.80	2.91	11 बीपीएस
आय-अनुपात-लागत	63.16	62.95	(21) बीपीएस
ऋण-जमा अनुपात	68.91	73.84	493 बीपीएस
सकल अनर्जक आस्तियां (जीएनपीए) (%)	12.17	6.97	(520) बीपीएस
निवल अनर्जक आस्तियां (एनएनपीए) (%)	2.74	1.84	(90) बीपीएस
प्रावधान कवरेज अनुपात (पी सी आर)	87.89	89.06	117 बीपीएस
कुल जमा (करोड़ में)	102137	109665	7.37
सकल अग्रिम (करोड़ में)	70387	80982	15.05
रैम अग्रिम (करोड़ में)	35692	43082	20.70

तिमाही-दर-तिमाही (अनुक्रमिक):

मापदण्ड	वित्त वर्ष 2022-23 तीसरी तिमाही	वित्त वर्ष 2022-23 चौथी तिमाही	वृद्धि %
परिचालन लाभ (करोड़ में)	344	536	55.81
शुद्ध लाभ (करोड़ में)	373	457	22.52
ऋण-जमा अनुपात	71.00	73.84	284 बीपीएस
आय-अनुपात-लागत	63.47	56.45	(702) बीपीएस
गैर-ब्याज आय (करोड़ में)	138	547	296.38
आस्तियों पर प्रतिफल (आर ओ ए)	1.11	1.33	22 बीपीएस
इक्विटी पर प्रतिफल (आर ओ ई)	26.09	28.43	234 बीपीएस
सकल अनर्जक आस्तियां (जीएनपीए) (%)	8.36	6.97	(139) बीपीएस
निवल अनर्जक आस्तियां (एनएनपीए) (%)	2.02	1.84	(18) बीपीएस
वसूली और उन्नयन (करोड़ में)	596	1153	93.46
कुल व्यवसाय (करोड़ में)	187242	190647	1.82

व्यवसाय प्रदर्शन का मुख्य सारांश (31 मार्च 2023)

प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम और वित्तीय समावेशन:

- ✓ बैंक ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम और कृषि क्षेत्र अग्रिम के लिए एएनबीसी के नियामक लक्ष्य क्रमशः 40% व 18% को पार कर लिया है, मार्च-2023 को बैंक में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम 54.99% तथा कृषि अग्रिम 20.67% रहा।
- ✓ छोटे और सीमांत किसानों को ऋण, एएनबीसी का 11.06% है, जबकि नियामक लक्ष्य 9.50% है।
- ✓ कमजोर वर्ग को ऋण, एएनबीसी का 12.68% है जबकि नियामक लक्ष्य 11.50% है।
- ✓ सूक्ष्म उद्यमों को ऋण, एएनबीसी का 14.31% है, जबकि नियामक लक्ष्य 7.50% है।
- ✓ मार्च-2023 तक बैंक ने पीएमजेडीवाई के अंतर्गत 19.30 लाख खाते खोले तथा ₹558 करोड़ जमाराशि एकत्रित की।

पूंजी पर्याप्तता:

- ✓ 14.32% के कॉमन इक्विटी टीयर 1 (सीईटी-1) अनुपात सहित वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर) 17.10% रहा।


नेटवर्क विस्तार:

- ✓ 31 मार्च 2023 तक, 835 एटीएम, 357 व्यवसाय प्रतिनिधि सहित बैंक की 1537 शाखाएं हैं जिनमें से 572 ग्रामीण, 281 अर्ध-शहरी, 362 शहरी तथा 322 महानगरीय शाखाएं हैं।
- ✓ बैंक ने हाल ही में पैन इंडिया में 25 नई शाखाएं खोली हैं, आज की तारीख में कुल शाखाओं की संख्या 1553 है।

पुरस्कार और सम्मान:

- ✓ एमएसएमई बैंकिंग उत्कृष्टता पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ उन्नतिशील बैंक रहा।
- ✓ बैंक ने पीएफआरडीए द्वारा आयोजित अनुकरणीय स्वर्ण पुरस्कार "लीडरशिप कैपिटल (4.0)" अभियान के तहत प्रथम स्थान प्राप्त किया।
- ✓ आईबीए द्वारा "सर्वश्रेष्ठ डिजिटल वित्तीय समावेशन पहल" श्रेणी पुरस्कार में उपविजेता घोषित किया गया।
- ✓ पीएसबी एलायंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा शुरू किए गए "डोर स्टेप बैंकिंग उड़ान अभियान" में तीसरा स्थान प्राप्त किया।

कृते पंजाब एण्ड सिंध बैंक
For PUNJAB & SIND BANK


उप महाप्रबंधक (ज.सं.) / Deputy General Manager (PR)